

(37)



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1532]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2006/पौष 6, 1928

No. 1532]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 2006/PAUSA 6, 1928

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 27 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2157(अ).—भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 12-6-2000 के अधिसूचना सं. का.आ. 565(अ) के साथ पठित पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आर. के. पाठक उप पटसन आयुक्त, एतद्वारा प्रति 100 बोरे की अधिकतम फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) मूल्य रु. 2013.49 निर्धारित करता हूँ, जिसमें 50 किलोग्राम पैकिंग हेतु उन्हीं बी. द्वालील जूट बोरे जिनका आकार 94 सें.मी. (+4,-0) × 57 सें.मी. (+4,-0)/एच. डी. और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम (+8%,-6%) हो, अन्तिम सिरे प्रति डी. एम. 76 (+4,-3) हो तथा पिक्स प्रति डी. एम. 28 (+2,-2) जिसमें बोरे की लंबाई के मध्य भाग में एकहरी नीली धारी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि.मी. की दूरी पर दो क्रमागत लाल बाने के धागों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिन्ह भी हो, जिनमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन (सं. भा.मा. 12650-2003, अद्यतन यथासंशोधित) के अनुरूप हो, माह दिसम्बर, 2006 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी। प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के नाम के पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण चिन्ह भी हो। भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधान के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सामर्थ्य (ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ) ताने की 160 के.जी.एफ. और बाने की 145 के.जी. एफ. हो।

2. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्वारा फैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा।

[फा. सं. 8/1/06-पटसन]

आर. के. पाठक, उप पटसन आयुक्त

**MINISTRY OF TEXTILES**  
(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)

**NOTIFICATION**

Kolkata, the 27th December, 2006

**S.O. 2157(E).**—In exercise of the powers conferred by Clause 3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, read with the Notification of the Government of India in the Ministry of Textiles bearing No. S.O. 565(E), dated 12-06-2000, I, R. K. Pathak, Deputy Jute Commissioner, hereby fix Rs. 2013.49 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twill Jute Bags for 50 kg packing of the size 94 cm (+4, -0) × 57 cm (+4, -0) / HD., 665 gms. (+8%, -6%) mass per bag, 76 (+4, -3) ends per dm, 28(+2, -2) picks per dm, single blue stripe running along the length of the bag at the centre along with additional identification marking of two consecutive red warp threads at a distance of about 150 mm away from anyone side of the selvedge, dry sewn and conforming in all other respects to the current BIS specification (No. IS: 12650-2003, as amended till date) shall be purchased or sold during the month of December, 2006. Every bag is to be branded with monogram to be specified by DGS&D, Kolkata with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall not be less than 160 kgf for warp way and 145 kgf for weft way as provided in the aforesaid specification of BIS.

2. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 8/1/06-Jute]

R. K. PATHAK, Dy. Jute Commissioner.